

स्वास्थ्य विभाग ने खरीदे 15 लाख के घटिया मास्क व किट

हिन्दुस्तान टीम, बदायूं

Last updated: Fri, 03 Apr 2020 12:59 AM



कोरोना महामारी से लड़ने को लोग जिला रेडक्रास सोसायटी में अपनी सामर्थ के हिसाब से धन दे रहे हैं, जिससे जिले में सामान की कमी न हो। इसका फायदा स्वास्थ्य विभाग ने उठा लिया। विभाग ने 15 लाख रुपए कीमत के घटिया क्वालिटी के मास्क व किट की खरीदी कर डाली हैं। मामला तब खुला जब यह सामान जिला अस्पताल पहुंचा। शिकायत के बाद डीएम ने माल वापस कर सप्लायर को नोटिस दिया है।

गुरुवार को जिला पुरुष अस्पताल में सीएमओ की ओर से रेडक्रास सोसाइटी से पीपीई किट (पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण) व एन-95 मास्क सहित सामग्री की सप्लाई की गई। जिसे सीएमएस सहित डॉक्टर ने खोलकर देखा तो पोल खुल गई कि बिल्कुल घटिया क्वालिटी की सप्लाई की गई। इसके बाद सीएमएस डॉ. सुकुमार अग्रवाल ने 29 पीपीई किट व मास्क वापस करते हुए डीएम को सूचना दी। डीएम ने सभी किट व मास्क की सप्लाई को वापस करने के निर्देश दिए और सप्लायर को नोटिस देते हुए धन प्रतिपूर्ति के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सीएमओ डॉ. यशपाल सिंह का जवाब तलब किया है। रेडक्रास सोसाइटी के करीब 15 लाख रुपए के बजट से 250 पीपीई किट व 12 हजार एन-95 मास्क खरीदे गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सामग्री खरीदी गई है, जो घटिया क्वालिटी की है। बता दें रेडक्रास सोसाइटी के अध्यक्ष डीएम हैं और सीएमओ सचिव हैं। दिल्ली का सप्लायर कर गया खेल डीएम ने किट व मास्क सहित खरीदारी के लिए सीएमओ से कहा था, सीएमओ ने इस खरीदारी के लिए दिल्ली के सप्लायर से संपर्क किया। दिल्ली का सप्लायर सेटिंग के अनुसार माल की सप्लाई कर चला गया है। दो एसीएमओ ने कराई सप्लायर से मुलाकात स्वास्थ्य विभाग में माल की सप्लाई के लिए तमाम ठेकेदार सप्लायर करते हैं, अधिकांश जैम पोर्टल से खरीदारी की जाती है। मगर दो एसीएमओ ने सीएमओ की सेटिंग सीधे दिल्ली के सप्लायर से करा दी। लालच के शिकार में फेंस अधिकारियों ने दिल्ली सप्लायर से ही खरीदारी कर डाली। बिना लेवल और सील के माल सप्लायर पीपीई किट व एन-95 मास्क जो रेडक्रास सोसाइटी को सप्लाई किए गए हैं अधुमानक हैं। उनकी क्या गुणवत्ता होगी, जिन पर न तो किसी कंपनी का लेवल है नहीं कोई एक्सपायरी व लेवल लगा है। यहां तक की सादा पॉलीथिन में सप्लाई की गई। सीएमओ की बड़ी लापरवाही रेडक्रास सोसाइटी से किट जब खरीदने के बाद मंगलवार को सप्लाई आई। सप्लाई आने पर सीएमओ ने लापरवाही की न तो किट व सामान को खुद न ही एसीएमओ व किसी अन्य डॉक्टर से चेक कराया। इसके बाद उझानी सीएचसी को सप्लाई भी करा दी।

रेडक्रास सोसाइटी से 29 पीपीई किटें व कुछ मास्क गुरुवार को उपलब्ध कराए गए थे। जिनकी गुणवत्ता नहीं थी नहीं कोई लेवल था। सादा पॉलीथिन में पैक होकर आए थे। डॉक्टरों को दिखाया, जिन्होंने किटें घटिया बताईं। इसलिए किटें व मास्क वापस कर दिए।

डॉ. सुकुमार, सीएमएस जिला पुरुष अस्पताल

जिले महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने एवं रोकथाम के लिए रेडक्रास सोसाइटी के कुछ सामान की खरीदी की गई। इसमें पीपीई किट व एन-95 मास्क सहित सामग्री हैं। सप्लाई आने पर पता चला है कि वे मानक के मुताबिक नहीं हैं। किट सहित माल वापस कर दिया है और सप्लायर को नोटिस दिया है। धन की प्रतिपूर्ति की जाएगी, इसमें सीएमओ की लापरवाही है जवाब तलब किया है।

कुमार प्रशांत, डीएम